



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 1, 1936

No. 1959]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 1, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

**का.आ. 2481(अ).**—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11—‘क’ के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना—2021/जोन ‘डी’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

1. दिल्ली मुख्य योजना—2021 के पैरा 10.3 (विरासत ज़ोन) में प्रस्तावित संशोधन, पैरा (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

विद्यमान	प्रस्तावित संशोधन
लुटिअन्स बंगला ज़ोन में विशेष विरासत परिसर।	इम्पीरियल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली और लुटिअन्स बंगला ज़ोन में विशेष विरासत परिसर।

2. ज़ोन ‘डी’ के क्षेत्रीय विकास योजना नक्शे में फुटनोट सहित इम्पीरियल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली की सीमा का समावेशन :

सीमाएं केवल संदर्भ के लिए हैं और इससे दि.मु.यो.—2021, ज़ोन ‘डी’ की अधिसूचित क्षे.वि.यो. और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों से किसी प्रकार के नीति परिवर्तन/विभिन्नता पर विचार नहीं होता।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को उप-निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ.16 (06)2014/एम.पी.]

बृजेश कुमार मिश्र, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

(MASTER PLAN SECTION)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 24th September, 2014

**S.O. 2481(E).**—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan-2021/ Zonal Development Plan of Zone ‘D’ under Section 11-A of DD Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of Forty-five days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

**Modifications :****1. Proposed Modifications in para 10.3 (Heritage Zones) of the Master Plan for Delhi-2021, para (ii) to be substituted by:**

<b>Existing</b>	<b>Proposed modification</b>
Specific heritage complex within Lutyens Bungalow Zone.	Specific heritage complex within Imperial City of New Delhi and the Lutyens Bungalow Zone.

**2. Incorporation of Boundary of Imperial City of New Delhi in the Zonal Development Plan of Zone ‘D’-map with footnote:**

*The boundaries are only for reference and do not envisage any policy changes/variation from the MPD-2021, notified ZDP of Zone ‘D’ and guidelines issued by Government of India from time to time.*

The plan indicating the proposed modifications are available for inspection at the office of Deputy Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[F. No. F. 16(06)2014/MP]

BRIJESH KUMAR MISHRA, Commr.-Cum-Secy.